



केन्द्रीय विद्यालय गांधीग्राम डिंडीगुल

## गुरु और चेला

### कठिन शब्द

1. चेला (student)
2. चमाचम (shining)
3. ग्वालिन (milk woman)
4. अनबुझ (foolish)
5. अजब (wonderful)
6. ककड़ी (cucumber)
7. संतरी (doorkeeper)
8. कारीगर (craftsman)
9. बरसात (rain)
10. भिश्ती (one who brings water)

### शब्दार्थ



1.

चेला - शिष्य



2.

धेला - पैसा



3.

डगरी - रास्ता



4.

शीश - सिर



5.

गगरी - घड़ा

7. अनबुझ - मूर्ख

6. सुयश - प्रसिद्धि



8.

भाजी - सब्जी

9. विवश - मज़बूर



10.

हाट - बाज़ार

11. खता - गलती

12. कजा - मृत्यु

13. करतब - कौशल

14. भिश्ती - पानी ढोने वाला व्यक्ति

15. गफलत - भूल

## विलोम शब्द

### विलोम शब्द

1. राजा x प्रजा
2. गुरु x शिष्य
3. स्वामी x दास
4. चोर x पुलिस
5. नगर x गाँव
6. खुश x दुख

प्रश्नों के उत्तर लिखो

प्रश्न 1) गुरु और चेले के पास क्या नहीं था?

उत्तर: गुरु और चेले के पास धेला नहीं था।

प्रश्न 2) रास्ते में मिली ग्वालिन ने नगर के बारे में क्या बताया ?

उत्तर: रास्ते में मिली ग्वालिन ने बताया कि यह नगर का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ राजा है।

प्रश्न 3) अंधेर नगरी में रहना गुरु को सही क्यों नहीं लगा?

उत्तर: अंधेर नगरी में रहना गुरु को सही नहीं लगा क्योंकि यहाँ का राजा महामूर्ख था। इस नगरी में न्याय व्यवस्था बेहद कमजोर था।

प्रश्न 4) चेला अंधेर नगरी में ही क्यों रहा गया?

उत्तर: अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीजें टके सेर मिलती थी इसलिए चेला इस नगर में ही रहा गया।

प्रश्न 5) अत्यधिक बरसात होने से क्या हुआ ?

उत्तर: अत्यधिक बरसात होने के कारण अंधेर नगरी में एक दीवार गिर गया था।

प्रश्न 6) गुरुजी के बात सुनकर राजा फाँसी पर लटक गया। गुरुजी ने क्या बात कही थी ?

उत्तर- गुरुजी ने यह कहा था कि इस सर्वश्रेष्ठ मुहुर्त जो फाँसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा।

निम्नलिखित शब्दों को आजकल कैसे लिखा जाता है ?

1. छन - क्षण
2. भग - भाग
3. धनी - गहरी
4. बिरानी - परायी
5. महरत - मुहुर्त

नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

1. खता - यह किसकी खता है?
2. धेला - महीने के अंत में लोग के पास धेला कम हो जाता है।
3. हाट - इस नगर का हाट बहुत बड़ा है।

रचनात्मक लेखन

आदर्श विद्यार्थी



विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। आदर्श विद्यार्थी विनम्र, सुशील, परिश्रमी, लगनशील, और आज्ञाकारी होता है। वह सबके साथ मधुर वचन बोलता है। वह हर काम मन लगाकर करता है।



## बिना जड़ का पेड़

### कठिन शब्द

1. व्यापारी (merchant)
2. उपहार (gift)
3. चुनौती (challenge)
4. निगरानी (to watch)
5. अहंकार (ego)
6. उपस्थित (present)
7. शिष्टाचार (good behaviour)
8. संदेह (doubt)
9. मनोरंजन (entertainment)
10. स्वीकार (accept)



### विलोम शब्द

1. उपस्थित x अनुपस्थित
2. उदार x अनुदार
3. उचित x अनुचित
4. आचार x अनाचार
5. इच्छा x अनिच्छा